

भारत ने अपने ‘‘रैस्पाँस’’ से पाकिस्तान के गले के फंदे को और टाइट किया

वैसे भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति पहले ही बड़ी नाज़ुक थी, महँगाई 2025 के प्रारम्भ में 20.8 प्रतिशत हो गई थी, पाकिस्तानी रुपया, अमेरिकी डॉलर की तुलना में गत दो वर्ष में 30 प्रतिशत वैल्यू खो चुका है

–सुकुमार साह–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 25 अप्रैल। पहलगाम में हुआ नरसंहार, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों को एक क्रूर आतंकी हमले में मौत के घाट उतार दिया गया, उपमहाद्वीप की पहले से ही असहज शांति में एक गंभीर मोड़ बन गया है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान–स्थित जिहादी नेटवर्क को सीधे तौर पर जिम्मेदार उहाराते हुए कई कड़े दंडात्मक कदम उठाए हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद की पहले से ही कमजोर नींव को हिला दिया है। सिंधु जल संधि को निर्लिंबित करना, व्यापार मार्गों को अचानक बंद करना और वीजा प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक देना, इन सबने पाकिस्तान को आर्थिक, कूटनीतिक और मानसिक रूप से घेर लिया है।

एक ऐसा देश, जो पहले ही बेलगाम महंगाई, भारी विदेशी कर्ज और लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है,

- पाकिस्तान का विदेशों से लिया हुआ ऋण जीडीपी का 40 प्रतिशत हिस्सा हो गया है।

- भारत द्वारा ‘‘इंडस वॉटर ट्रीटी’’ के तहत पाकिस्तान को पानी छोड़ने से मना करने से पाकिस्तान कांप गया है, क्योंकि पाकिस्तान का कृषि उत्पाद, उसकी जीडीपी का चौथाई हिस्सा है तथा 40 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है।

- पानी बंद होने से फूड सप्लाई प्रभावित होगी तथा इससे जो इकोनॉमिक नुकसान होगा वह जीडीपी के दो प्रतिशत के बराबर होगा।

- ट्रेड रूट्स बंद करने से लगभग 2 अरब डॉलर का नुकसान होगा, पड़ोसी देश से व्यापार तब तक के लिए बंद हो जायेगा, जब तक कि पाकिस्तान आयात के लिए वैकल्पिक रास्ते व स्रोत नहीं ढूंढ़ लेता।

- इस इकोनॉमिक ‘‘डाउन टर्न’’ के कारण विदेशी मुद्रा का निवेश, जो पहले ही घट रहा था, और घट जायेगा और इकॉनमी का ‘‘रिवाइवल’’ और कठिन होगा।

उसके लिए भारत की यह प्रतिक्रिया एक करारी चोट है। संदेश स्पष्ट है: इसकी कीमत चुकानी होगी–और वह कीमत असहनीय होगी। अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है, और उसकी हुकूमत को घेरलू असंतोष और आर्थिक पतन स्पष्ट नजर आ रहा है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जो पहले ही नाजुक हालत में थी, अब टूटने की कगार पर है। देश गंभीर महंगाई से जूझ रहा है–2025 की शुरुआत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इससे जीवन, यापन की लागत, खासकर कामकाजी और मध्यम वर्ग के लिए, असहनीय हो गई है। पाकिस्तानी रुपया पिछले दो वर्षों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 30 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है, जिससे आयात महंगा हो गया है और रोजमर्रा की चीजें आम जनता की पहुंच से बाहर हो गई हैं। इसके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग छात्रा का अपहरण-दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 20 साल की सजा

जयपुर, 25 अप्रैल। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम–1 महानगर द्वितीय ने 12वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अजब सिंह उर्फ अमित को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल द्वितीय ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त 18 साल से कम उम्र की पीड़िता को उसके माता–पिता की मंजूरी के बिना कथित विवाह व संभोग करने के आशय से बहलाकर कई जगह पर ले गया। उसने कई जगहों पर पीड़िता के साथ संबंध

- नाबालिग छात्रा एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी व अभियुक्त वहाँ पढ़ता था।

बनाए। यदि इसमें पीड़िता को सहमति भी रही हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने ब्रह्मपुरी पुलिस थाने में 6 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी निजी स्कूल में कक्षा 12वीं में पढ़ती है और अभियुक्त भी वहां पढ़ता है। उसकी बेटी 5 अक्टूबर को स्कूल से दोपहर दो बजे आई थी। उसने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाक नागरिकों को जारी वीजा 27 अप्रैल से रद्द

नयी दिल्ली, 25 अप्रैल। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा को छोक कर अन्य वीजा 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी दीर्घकालिक , राजनयिक और आधिकारिक वीजा रद्द नहीं किए गए हैं। मेडिकल वीजा को भी कुछ राहत दी गई है और ये 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे।

- दीर्घकालिक, राजनयिक व अधिकारिक वीजा कानून रहेंगे और मेडिकल वीजा को भी राहत दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा अन्य सभी श्रेणियों में जारी वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘हम तीन दशक से आतंकवादियों को फण्ड कर रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं’

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने इंगलैंड की स्काई न्यूज़ को दिये गये इंटरव्यू में स्वीकार किया

- रक्षा मंत्री ने कहा, वे यह सब अमेरिका व पश्चिमी देशों, जैसे ब्रिटेन के लिए एक सुनियोजित नीति के तहत कर रहे थे।

- यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत कई दशकों से पाकिस्तान के इन आतंकवादी समर्थक कृत्यों के बारे में हल्ला करता रहा है, पर, पाकिस्तान इससे इन्कार करता रहा है।

तनाव की पृष्ठभूमि में हुआ है। जम्मू–कश्मीर में कई वर्षों बाद हुआ यह सबसे घातक हमला था, जिसमें 26 लोग मारे गए व अधिकांश पर्यटक थे।

उन्होंने यह बात तब कही, जब उनसे पाकिस्तान की आतंकियों को फंडिंग के बारे में पूछा गया, उन्होंने आगे कहा कि देश के पिछले निर्णय ‘‘गलती’’ थे जिनसे दीर्घकालिक नुकसान हुआ।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर हमने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में और बाद में 9/11 के बाद युद्ध में भाग नहीं लिया

होता तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता।’’

उन्होंने वैश्विक शक्तियों पर उंगली उठाई।

उन्होंने कहा, ‘‘बड़ी ताकतों के लिए पाकिस्तान को दोष देना पुर्बिधाजनक था जिसने ‘‘उनके पक्ष में’’ 80 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध लड़ा। आज वे सभी आतंकवादी वॉशिंगटन में स्वागत–सत्कार पा रहे हैं।’’

आसिफ ने कहा कि अमेरिका ने स्वयं सोवियत–अफगान युद्ध के दौरान

आतंकियों के ‘‘प्रॉक्सी’’ के रूप में इस्तेमाल किया।

भारत ने बार–बार पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों को शरण देने और समर्थन देने का आरोप लगाया है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में।

द रैशियेस्ट्स फ्रंट (टीआरएफ), जो पाकिस्तान स्थित लश्कर–ए–तैयबा का प्रॉक्सी है, ने पहलगाम नरसंहार की जिम्मेदारी ली है।

इस हमले के बाद भारत ने कठोर कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी, जिसमें सिंधु जल संधि को निर्लिंबित करना भी शामिल है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि यदि जल प्रवाह को रोक़ा गया, तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, और उसने भी भारत के साथ व्यापार बंद करने और भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने जैसे कदम उठाए हैं।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तनाव बढ़ने की चेतावनी दी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. कस्तूरीरंगन का निधन

बेंगलुरु,25 अप्रैल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष , पूर्व सांसद एवं प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन का शुक्रवार का बेंगलुरु में निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। डॉ. कस्तूरीरंगन का निधन आज सुबह 10:43 बजे हुआ।

- प्रधानमंत्री मोदी ने 84 वर्षीय डॉ. कस्तूरीरंगन के निधन पर शोक जताया तथा कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में उनके योगदान का देश हमेशा ऋणी रहेगा।

उनका पार्थिव शरीर 27 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआर आई) में जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

में बढ़ती निराशा और क्षोभ को दर्शाता है, जिसने आतंकवाद के दिनों में भारी संघर्ष किया है।

ट्रैवल एजेन्ट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के अध्यक्ष रऊफ टाम्बो ने कहा कि ‘‘हम घटना की कड़ी निंदा करते हैं और शांति स्थापना के लिए सरकार को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा देते है। पर्यटकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।’’ एसोसिएशन नुकसान की भरपाई के लिए सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है।

जम्मू कश्मीर की जीडीपी का 7 प्रतिशत पर्यटन उद्योग है और 20 लाख (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हैं। इनमें से अधिकांश तो आतंकी घटना के कुछ ही घंटों में रद्द हो गई थीं। हम उम्मीद कर रहे थे कि कई सालों बाद इस बार बैस्ट टूरिस्ट सीज़न होने जा रहा है, पर अब ऐसा लगता है कि हम फिर वहीं पहुँच गए हैं।’’

- जैसा कि विदित ही है, पर्यटन का जम्मू-कश्मीर की जीडीपी में सात प्रतिशत का योगदान होता है तथा इस उद्योग से बीस लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है।

- टूरिस्ट इण्डस्ट्री को केवल बुकिंग्स व आमदनी का ही नुकसान नहीं है, कश्मीर के टूरिज़्म की छवि आहत हुई है, जिसका नुकसान पैसों-टकों से नहीं आंका जा सकता।

हो गई हैं और अगर सुरक्षा संबंधी भय का समाधान नहीं किया गया तो यह संख्या और बढ़ेगी। जम्मू के एक ट्रैवल एजेंट रविंदर सिंह ने बताया कि ‘‘मार्च और अप्रैल की उसकी 50 प्रतिशत बुकिंग्स रद्द हो चुकी

सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी कश्मीर पहुँचे

श्रीनगर, 25 अप्रैल। जम्मू–कश्मीर में बढ़ ते तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को कश्मीर पहुँचे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना प्रमुख के आगमन के तुरंत बाद उन्हें सेना के श्रीनगर स्थित 15 कोर कमांडर ने सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल पहलगाम के बैसरन मैदान में हमले के मद्देनजर आतंकवाद विरोधी

- वे पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करेंगे।

अभियानों के बारे में जानकारी दी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।

सेना प्रमुख को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान से संघर्ष विराम उल्लंघन के बारे में भी जानकारी दी गई। सेना प्रमुख के श्रीनगर पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही कुपवाड़ा जिले के नीगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो दिन में ही 1200 से ज्यादा ‘‘कैन्सलेशन’’ आए, कश्मीर के होटल व टूर ऑपरेटर्स के पास कश्मीर के ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोग, इस बार कश्मीर का ‘‘बैस्ट सीज़न’’ होने की आशा कर रहे थे, पर, पहलगाम के बाद सब आशाएं धूमिल हो गई

–सुकुमार साह–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 25 अप्रैल। पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले ने न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को आहत किया है, बल्कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था के हृदय, यानी इसके पर्यटन उद्योग को भी तोड़ कर रख दिया है। जिस समय कश्मीर घाटी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नक्शे पर अपनी खोई कश्मीर के लिए आतंकवाद की कीमत है, कैसल होती ट्रिप्स तथा रोजगार व आजीविका का छिन जाना।

जम्मू कश्मीर के दूर ऑपरेटर्स व होटल वालों ने बताया है कि भारी मात्रा में बुकिंग कैसल हुई हैं और भविष्य में बुकिंग की संभावना भी ठंडे बस्ते में हैं। अब तक 800 से 1200 बुकिंग्स कैसल

माहौल था, वहाँ अब निराशा व अवसाद नजर आ रहा है। इस हिंसा का असर सिर्फ राजनैतिक और सैन्य क्षेत्र पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इसका असर श्रीनगर के बाजारों में दिख रहा है, डल झील के शिकारों और गुलमर्ग और पहलगाम के होटलों पर दिख रहा है, जो कुछ समय पहले तक पर्यटकों से गुलजार थे। कश्मीर के लिए आतंकवाद की कीमत है, कैसल होती ट्रिप्स तथा रोजगार व आजीविका का छिन जाना।

जम्मू कश्मीर के दूर ऑपरेटर्स व होटल वालों ने बताया है कि भारी मात्रा में बुकिंग कैसल हुई हैं और भविष्य में बुकिंग की संभावना भी ठंडे बस्ते में हैं। अब तक 800 से 1200 बुकिंग्स कैसल

विचार बिन्दु

निरंतर विकास जीवन का एक नियम है। और जो भी व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वो खुद को एक गलत स्थिति में पंहुचा देता है। –महात्मा गांधी

झुलसाने लगी लू और उड़ने लगे धूल के गुबार

रेतीले टीलों से आच्छादित राजस्थान सहित उत्तर भारत के अनेक प्रदेशों में लू का चलन आम बात है। अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी और लू ने लोगों को झुलसाना शुरू कर दिया है। गर्मी और लू के साथ धूल भरे गुबार उड़ने शुरू हो गए हैं। धूल भरे गुब्बारे यानि मौसमी आंधियां तब आती हैं जब तेज हवाएँ ज़मीन से बड़ी मात्रा में रेत और धूल के कण उठाती हैं तथा उन्हें लंबी दूरी तक ले जाती हैं। इन्हें राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जन जीवन की सामान्य घटनाएं भी कह सकते हैं। गर्मी के मौसम में धूल परी आंधी और लू चलनी शुरू हो जाती हैं। जिसके कारण हवाओं में धूल के कण मिलकर लोगों के नाक और मुंह में जाते हैं। इससे लोगों को धूल-मिट्टी से एलर्जी होना सामान्य बात है। धूल के गुब्बारे के कारण सड़क पर पैदल, साइकिल, बाइक व बड़े वाहनों से चलने वालों का चलना दुश्वार हो जाता है। धूल के गुब्बारे उड़ने से सड़क पर घने कोहरे जैसा आलम पूरे दिन बना रह रहा है। इस रास्ते से खासकर बाइक, पैदल व साइकिल से गुजरने वाले लोग गर्द-गर्द हो धूल में नहाये से दिखने लग रहे हैं। वहीं धूल प्रदूषण का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण इस सड़क किनारे बसी बस्तियों के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। विशेषकर रेतीले क्षेत्रों में लोगों के घरों में बिस्तर से लेकर भोजन तक सड़क की धूल फैल सी जा रही है। जिससे लोगों का अपने घरों में रहना भी मुश्किल सा हो गया है। इसी के साथ पानी की किल्लत और बिजली की आँख मिचौली ने कोड में खाज का काम किया है।

मौसम विभाग ने लू यानि हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया है। चिकित्सकों के मुताबिक धूल भरी आंधी और गुबार से नाक, नासिका, एलर्जी व रेस्पिरैटरी इंफेक्शन होने का आशंका बढ़ जाती है। धूल के कण सांस के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इस कारण दमा व अस्थमा एवं दमा के रोगियों को भारी तकलीफ होती है। यही नहीं धूल के कण आंखों में चले जाने से आंखों की बीमारी का खतरा मंडराता है। गर्मी और गर्म हवाएं शरीर में अक्सर ऐसा असर डालती हैं, जिस वजह से जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लू लगनी भी इन्हीं स्थितियों में से एक है। धूप, गर्मी और गर्म हवा से शरीर को बचाकर ही हम इस स्थिति से बच सकते हैं। साल-दर-साल लू

गर्मी में खूब तरल पदार्थ का सेवन करें। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। नारियल पानी, फलों से तैयार जूस पीना भी फायदेमंद होगा। दिन के समय खासकर 12 बजे से लेकर 3 बजे दिन तक घर से निकलने से बचें। धूप में बाहर बिना काम के ना घूमें। बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो छाता, टोपी, चश्मा, स्कार्फ पहनकर ही निकलें। घर आते ही ठंडा पानी पीने से बचें।

या इससे भी ज्यादा हो जाता है। लू लगना, आतप ज्वर, ऊष्मा-मूर्छा (हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक) शरीर की वह रुग्ण अवस्था है। लू लगने पर सिर में भारीपन महसूस होता है। खून का बहाव बाँझ में बहुत तेजी से होता है। सांसे काफी तेज चलती हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर टूट रहा है। अचानक से काफी तेज बुखार के साथ आंखों में भी जलन होती है और पानी आता है। लू के थपड़े तन झुलसा रहे हैं। लू से शरीर की कार्यप्रणाली प्रभावित हो जाती है। जहान्नि भी हो सकती है, इससे बचाव बहुत ही जरूरी है। धूप में घर से बाहर निकलें तो पानी पीकर और शरीर को पूरा ढँकने वाले कपड़े पहनें। धूप में छाते का इस्तेमाल करें। तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। स्वास्थ्य खराब होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाएं। लू लगे व्यक्ति को छाया में, पंखे या कूलर के सामने लिटाएं। शरीर का तापमान कम करने के लिए गर्दन, सिर और पेट पर ठंडे पानी से गीला कपड़ा रखें।

लू लगने पर अगर तुरंत उपचार न मिले, तो मृत्यु या स्थायी विकलांगता भी हो सकती है। बड़े-बुजुर्ग कहते हैं गर्मी के दिनों में हल्का व शीघ्र पचने वाला भोजन करना चाहिए। नितिकत्सक कहते हैं लू से बचने के लिए बाहर जाते समय खाली पेट नहीं जाना चाहिए। बार-बार पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में जल की कमी नहीं होने पाए। पानी में नींबू व नमक मिलाकर दिन में दो-तीन बार पीते रहने से लू नहीं लगती। गर्मी के दौरान नरम, मुलायम, सूती कपड़े पहनना चाहिए जिससे हवा और कपड़े शरीर के पसीने को सोखते रहते हैं। प्याज का सेवन भी अधिक करना चाहिए एवं बाहर जाते समय कटे प्याज को जेब में रखना चाहिए। गर्मी में खूब तरल पदार्थ का सेवन करें। घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अपने साथ पानी की बॉटल रखें। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। नारियल पानी, फलों से तैयार जूस पीना भी फायदेमंद होगा। दिन के समय खासकर 1२ बजे से लेकर 3 बजे दिन तक घर से निकलने से बचें। धूप में बाहर बिना काम के ना घूमें। बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो छाता, टोपी, चश्मा, स्कार्फ पहनकर ही निकलें। घर आते ही ठंडा पानी पीने से बचें। इससे आपको सर्द-गर्म लग सकता है। सर्दी, जुकाम, बुखार भी हो सकता है। हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन करें। उन मौसमी फलों का सेवन करें, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। खरबूजा, तरबूज, नारियल, खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च में पानी की मात्रा अधिक होती है। इन्हें प्रतिदिन अपनी डाइट में शामिल करें।

—अतिथि संपादक, बाल मुकुंद ओझा, वरिष्ठ लेखक और पत्रकार



पंडित अनिल शर्मा

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:34 से 9:11 तक, चर 12:25 से 2:02 तक, लाभ अमृत 2:02 से 5:16 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:57, सूर्यास्त 6:53

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 6:27 तक, वैधृति योग प्रातः 8:41 तक, वणिज करण प्रातः 8:28 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:39 से मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मे़ष, चन्द्रमा-मीन, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज भद्रा प्रातः 8:28 से सायं 6:39 तक है। आज मास शिवरात्रि है। आज चतुर्दशी तिथि का क्षय हुआ है। पंचक रात्रि 3:39 तक है। आज वैधृति पुण्य है।

 मेष घर-गृहस्थी के खर्चों का अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। परिवार में वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।	 सिंह चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ रहेगा। आज पारिवारिक कार्यों के कारण मानसिक तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।	 धनु घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। सुबह-सुबिधाओं पर धन खर्च होगा। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।
 वृष आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।	 कन्या व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक बातों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।	 मकर परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।
 मिथुन व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 तुला व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।	 कुंभ आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिलेगी।
 कर्क धार्मिक-मंगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 वृश्चिक व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नौकरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	 मीन पारिवारिक कारणों से मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

भारत ने बांग्लादेश को कड़ा झटका दिया, ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद करने से ढाका की अर्थव्यवस्था डगमगाई



सुनील दत्त गोयल

मोहम्मद युनुस, जिन्हें एक 'डीप स्टेट' का समर्थक माना जाता है, शायद यह भूल गए हैं कि यह भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। ना तो उन्हें व्यापार का ज्ञान है, ना ही राजनीति की उतनी समझ है जितनी होनी चाहिए। आज का भारत पहले से कहीं अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर है। वह अब किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति में नहीं आता। युनुस यदि अपने कंधे दूसरों तक तेज और सस्ते निर्यात की सुविधा मिली थी।

उन्हें समझना चाहिए कि बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर बाहरी सलाह या प्रभाव के आधार पर काम किया जाए। यदि वे अपने देश की नीतियों को किसी अन्य देश की सलाह पर आधारित करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश भी गलत राह पर चल पड़ेगा – शायद उसी 'कंगाली' के रास्ते पर, जिस पर पहले भी कई देश फिसल चुके हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अचानक तल्खी आ गई है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली बहुप्रतीक्षित ट्रांसशिपमेंट सुविधा पर रोक लगाकर एक स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है – 'राष्ट्रहित सर्वोपरि है।' यह निर्णय उस समय आया है जब

बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस ने चीन में भारत विरोधी बयान दिए। परंतु यह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल है, जिसका दूरगामी असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। ट्रांसशिपमेंट सुविधा क्यों थी बांग्लादेश के लिए जीवनरेखा? बांग्लादेश, विशेषकर रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवियर उद्योग के लिए भारत का लॉजिस्टिक सहयोग एक जीवनरेखा जैसा था। बांग्लादेश के बंदरगाह – चटगांव और मोंगला – सीमित क्षमता के कारण अत्यधिक भीड़भाड़ और समय की बर्बादी से जूझते हैं। ऐसे में भारत के कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और अन्य बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट सुविधा मिलने से बांग्लादेश को यूरोप, अमेरिका और मध्य एशिया के बाजारों तक तेज और सस्ते निर्यात की सुविधा मिली थी। भारत के जरिए होने वाले ट्रांसशिपमेंट से न केवल समय और लागत में कमीआई, बल्कि बांग्लादेशी निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने का मौका दिया। यही कारण था कि वर्ष 2024 में केवल पेट्टापोल सीमा से 357 करोड़ मूल्य का ट्रांसशिपमेंट हुआ। भारत का कड़ा फैसला – कारण केवल युनुस के बयान नहीं हालांकि युनुस के बयान टिगर प्वाइंट साबित हुए, लेकिन भारत के इस फैसले के पीछे कई अन्य रणनीतिक पहलू भी हैं: पूर्वोत्तर राज्यों को 'लैंडलॉक्ड' बताकर दबाव की रणनीति अपनाना: युनुस ने यह कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य समुद्र से कटे हुए हैं और उन्हें केवल बांग्लादेश के रास्ते ही दुनिया से जोड़ा जा सकता है। यह एक रणनीतिक

ब्लैकमेल की कोशिश थी, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया। चीन को आमंत्रण: युनुस ने बांग्लादेश में चीनी निवेश को बढ़ावा देने का अनुरोध किया, जो भारत के लिए सुरक्षा और भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है। सीमा सुरक्षा पर बढ़ती चिंताएं: बांग्लादेश की सीमा से अक्सर अवैध घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी, और रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या जैसे मुद्दे भारत को परेशान करते हैं। भारत के फैसले के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव – बांग्लादेश के लिए विनाशकारी परिदृश्य 1. **गारमेंट इंडस्ट्री पर सीधा प्रहार:**– बांग्लादेश की जीडीपी का लगभग 16 प्रतिशत और कुल निर्यात का 83 प्रतिशत रेडीमेड गारमेंट्स से आता है। यदि भारत के रास्ते शिपिंग रुकती है, तो समय और लागत दोनों में तेजी से वृद्धि होगी। इससे बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी और ऑर्डर्स वियतनाम, कंबोडिया व भारत जैसे प्रतिस्पर्धियों को मिल सकते हैं। 2. **विदेशी निवेश में गिरावट:**– विदेशी कंपनियाँ, जो अब तक बांग्लादेश को एक कम लागत वाला मैनुफैक्चरिंग हब मानती थीं, भारत से दुश्मनी और चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियों को देखकर निवेश कम कर सकती हैं। राजनीतिक अस्थिरता का डर विदेशी पूंजी को दूर धकेल सकता है। 3. **भूगोलिक निर्भरता अब अभिशाप बनेगी:**– बांग्लादेश, भारत से तीन ओर से घिरा हुआ है। भारत से संबंध खराब होने का मतलब है – भूमि, वायु और जलमार्गों तक सीमित पहुंच। कोई भी वैकल्पिक मार्ग जैसे चीन के जरिए निर्यात, न केवल महंगे है, बल्कि अव्यवहारिक भी। 4. **भारतीय टूरिज्म और**

मेडिकल वीज़ा का बंद होना:– हजारों बांग्लादेशी नागरिक भारत में इलाज के लिए आते हैं। अगर संबंध बिगड़े तो मेडिकल वीज़ा, उच्च शिक्षा और टूरिज्म वीज़ा बंद हो सकते हैं, जिससे मध्यम वर्ग पर सीधा असर होगा। 5. **रोज़गार में भारी गिरावट:**– गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े करोड़ों लोगों की नौकरियों पर संकट आ सकता है। पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा बांग्लादेश सामाजिक अशांति की ओर बढ़ सकता है। 6. **भूटान, नेपाल और प्यांमार के व्यापार मार्ग भी बंद हो सकते हैं:**– बांग्लादेश भारत के माध्यम से भूटान और नेपाल को भी वस्तुएं भेजता था। भारत के रास्ते बंद होने से ये बाजार भी खो सकते हैं। 7. **भारत के साथ व्यापार घाटा बढ़ेगा, लेकिन व्यापार खत्म हो सकता है:**– बांग्लादेश भारत से हर साल लगभग 13–14 अरब डॉलर का सामान आयात करता है। यदि भारत प्रतिबंध लगाता है तो रोज़मर्रा की जरूरतें जैसे दवाइयाँ, मसाले, इंजीनियरिंग सामान और औद्योगिक मशीनरी महंगे या दुर्लभ हो सकते हैं। **भारत को क्या फायदा?** अपने बंदरगाहों पर लोड कम करके भारतीय निर्यातकों को बढ़त मिलेगी। गारमेंट, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भारत की ग्लोबल हिस्सेदारी बढ़ेगी। भूटान और नेपाल के साथ रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। चीन और बांग्लादेश की नजदीकी को नियंत्रित करने का दबाव बनाए रखा जा सकेगा। **निष्कर्ष:** दुश्मनी की कीमत भारी पड़ेगी। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत से कूटनीतिक और भू-

राजनीतिक दृशमनी का सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय छवि पर पड़ेगा। हर छोटे और विकासशील देश को यह समझना चाहिए कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते में अपने पड़ोसी देश की क्षमताओं, हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखना जरूरी होता है। पड़ोसी देश हमेशा पड़ोसी रहेंगे, और अच्छे संबंध ही स्थायी हित में होते हैं। पाकिस्तान का उदाहरण सामने है, जिसने पिछले 75 वर्षों में भारत के साथ आतंकवाद और अनुचित व्यवहार को ही चुना – और आज वही आतंकवाद पाकिस्तान की नीयत और हालत पर भारी पड़ रहा है। भारत ने अपने रुख से यह साफ कर दिया है कि वह अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा। यदि कोई देश उसकी सुरक्षा, भू-रणनीति या वचस्व को चुनौती देता है, तो भारत प्रतिरोध करने को तैयार है – और अब वह प्रतिरोध न केवल शब्दों में बल्कि रणनीतिक नीतियों के जरिए होगा। मोहम्मद युनुस को यह समझना चाहिए कि वह फिलहाल केवल बांग्लादेश सरकार के एक सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री नहीं। उनका चयन चुनाव के माध्यम से नहीं हुआ है, बल्कि एक प्रक्रिया द्वारा नामांकित किया गया है। उन्हें अपनी सीमाएं, मर्यादाएं और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर वह अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए कार्य करेंगे, और बांग्लादेश के हित में सोचेंगे, तभी उनका देश भी सशक्त बन पाएगा – अन्यथा यह केवल किसी अन्य देश के हित साधन का माध्यम बन जाएगा।

धन्यवाद, —सुनील दत्त गोयल, महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जयपुर, राजस्थान

प्रस्तावित जीएसएस का सर्वे करने विद्युत विभाग की टीम सरदारपुरा पहुंची

ग्रामीणों ने पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया से मिलकर विद्युत आपूर्ति की कठौती को लेकर समस्या रखी थी, जिसका पूनिया ने समाधान करवाया

सादुलपुर, (नि.सं।) सरदारपुरा गांव में प्रस्तावित 33/11 केवी जीएसएस के लिए भूमि देखने के लिए शुक्रवार को गांव सरदारपुरा में जोधपुर विद्युत वितरण निगम की टीम पहुंची। जिसमें निगम के जेईएन के नेतृत्व में विभाग की टीम ने हमरीवास से रामपुरा मुख्य सड़क मार्ग पर सरदारपुरा गांव के रामस्याह वाला जोहड़ में पहुंचकर मौका निरीक्षण किया।

जानकारी के अनुसार गत कुछ दिनों पहले सरदारपुरा गांव के ग्रामीण पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान व वर्तमान भाजपा हरियाणा प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया से मिलकर विद्युत आपूर्ति की कठौती को लेकर समस्या रखी थी। ग्रामीणों ने सरदारपुरा हमीरवास के मध्य रामपुरा मुख्य सड़क मार्ग पर 33/11 केवी जीएसएस बनाने की मांग की थी। जिसको लेकर डॉ. सतीश पूनिया ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तुरन्त ऊर्जा मंत्री से दूरभाष पर बातें कर सरदारपुरा गांव में जीएसएस बनवाने के लिए कहा। इसी



गांव सरदारपुरा में प्रस्तावित जीएसएस के लिए निगम के अधिकारियों एवं कर्मिकों ने निरीक्षण किया

के चलते ऊर्जा मंत्री के आदेश पर आज प्रस्तावित जीएसएस के निरीक्षण के लिए विद्युत विभाग की टीम सरदारपुरा गांव में पहुंची और मौका निरीक्षण किया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता

को भिजवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए में स्वयं वीनट्रिंग करूंगा। इस मौके पर सरदारपुरा गांव के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की टीम को वेदप्रकाश

वणधर गांव में छह माह से बिजली संकट, ग्रामीण परेशान

रानीवाड़ा, (नि.सं.)। वणधर गांव के निवासी पिछले छह महीनों से गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम में पिछले 20–25 दिनों से बिजली की आपूर्ति इतनी कमजोर हो गई है कि पंखे और कूलर जैसे आवश्यक उपकरण भी ठीक से

■ 20-25 दिनों से बिजली की आपूर्ति इतनी कमजोर हो गई है कि पंखे और कूलर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं

■ लोगों का कहना है कि बिजली लोड की कमी के चलते कई उपकरण खराब हो चुके हैं

काम नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली लोड की कमी के चलते कई उपकरण खराब हो चुके हैं, जिससे बड़े-बुजुर्ग और बच्चों को अत्यधिक गर्मी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में पहले मौजूद ट्रांसफार्मर अनियमित रूप से हटाए गए या चोरी



समस्या के समाधान को लेकर ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा को ज्ञापन दिया।

हो गए, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से इसकी जांच कराने और उच्चाधिकारियों को मौके पर भेजकर वास्तविकता का पता लगाने की मांग की है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए वणधर के नागरिकों ने प्रशासन से अतिशीघ्र नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो ग्रामवासी धरना-प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं विद्युत विभाग की होगी।

आरएस भर्ती के साक्षात्कार का द्वितीय चरण पांच से

साक्षात्कार की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शुक्रवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2023 के अन्तर्गत द्वितीय चरण सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2023 के द्वितीय चरण के साक्षात्कार का आयोजन 5 से 16 मई तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। इस भर्ती के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। अन्य विभिन्न परीक्षाओं का साक्षात्कार कार्यक्रम :- सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा- 2023 के अन्तर्गत इाईंग एंड पेंटिंग विषय के साक्षात्कार का आयोजन 5 से 19 मई 2025, स्कल्पचर विषय के साक्षात्कार का आयोजन 6 मई तथा फिलॉसफी विषय के साक्षात्कार का आयोजन 27 एवं 28 मई को किया जाएगा। विधि रचनाकार (विधि एवं विधिक कार्य विभाग) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार का आयोजन 7 एवं 8 मई को निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। इन भर्तियों के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। उक्त समस्त भर्तियों के तहत संबंधित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे।

बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ाई

सीमावर्ती इलाकों के पुलिस थानों में हथियारबंद जवान तैनात किए गए

श्रीगंगानगर, (निसं)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद राजस्थान में भी सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट है, जिसके चलते श्रीगंगानगर में भी बॉर्डर इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं सीमावर्ती इलाकों के पुलिस थानों में हथियार बंद जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही बॉर्डर इलाकों में होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियां अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

इधर देरदार बीकानेर रेंज आईजी ओमप्रकाश पासवान व संभागीय आयुक्त रवि कुमार श्रीकरणपुर पहुंचे। दोनों अधिकारियों के साथ एसपी गौरव यादव व जिला कलेक्टर डॉ. मंजू चौधरी ने बीएसएफ के साथ बॉर्डर इलाके का निरीक्षण कर बीएसएफ

■ सीमा पर गश्त बढ़ाई, रेंज आईजी व संभागीय आयुक्त श्रीकरणपुर पहुंचे

■ सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 दिनों से पाकिस्तानी रेंजर्स की मूवमेंट भी बढ़ गई है

■ सीमा पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों में पाक रेंजर्स कभी कभार गश्त करते थे, लेकिन पिछले दो दिनों से पाक रेंजर्स को गश्त करते देखा जा रहा है

अधिकारियों के साथ बैठक की। बॉर्डर इलाके में हो रही प्रत्येक गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। वहीं सरकार ने भी सभी सुरक्षा एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के आदेश दिए। बॉर्डर इलाके में बीएसएफ में गश्त बढ़ा दी है। आने-

जाने वाले प्रत्येक वाहन की तलाशी व व्यक्ति से गहनता से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे इलाकों पर नजर रखी जा रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहलगांव में हुए हमले के बाद से ही देश की सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे

में बीएसएफ के जवानों व अधिकारियों को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ की अस्थाई चौकियां लगाई हैं। बीएसएफ की पोस्टों पर जवानों की संख्या में भी बढ़ाई गई है। श्रीगंगानगर जिलेभर में भी श्रेणी की नाकाबंदी चल रही है, जिसमें हथियार बंद जवानों द्वारा पूरे जिले में नाकाबंदी कर आने-जाने वाले प्रत्येक वाहन को चेक किया जा रहा है। वहीं श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की बैठक की। राष्ट्रीय सुरक्षा व सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट को मध्यनजर रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की।

सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 दिनों से पाकिस्तानी रेंजर्स की मूवमेंट भी बढ़ गई है। सीमा पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों में पाक रेंजर्स कभी कभार गश्त करते थे, लेकिन पिछले दो दिनों से पाकिस्तानी रेंजर्स को गश्त करते हुए देखा जा रहा है। ऐसे में आतंकी हमले को पोस्टों पर जवानों के संख्या में भी बढ़ाई गई है। श्रीगंगानगर जिलेभर में भी श्रेणी की नाकाबंदी चल रही है, जिसमें हथियार बंद जवानों द्वारा पूरे जिले में नाकाबंदी कर आने-जाने वाले प्रत्येक वाहन को चेक किया जा रहा है। वहीं श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की बैठक की। राष्ट्रीय सुरक्षा व सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट को मध्यनजर रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की।

आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर निगरानी शुरू

बीकानेर, (निसं)। जिले की पाकिस्तान से लगती बॉर्डर सीमा पर इंटेलीजेंस और पुलिस की चौकियां बंद पड़ी हैं। इंटेलीजेंस की चौकियां शुरू करने के प्रस्ताव मुख्यालय को भेजे गए थे जो लंबे समय से टंडे बस्ते में हैं और पुलिस की चौकियां स्टॉफ के अभाव में बोनान है। दक्षिण कश्मीर के अतंताग जिले में पहलगाम से 6 किमी दूर पर्यटन स्थल बेसरन घाटी में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बीकानेर रेंज के

बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में उच्च अधिकारी स्वयं बॉर्डर के दौरों पर हैं। गुप्तचर एजेंसियां और बीएसएफ बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी सीमा में गतिविधियों पर नजरें गड़ाए हैं। ऐसे में बॉर्डर एरिया पर पड़ताल की गई तो सामने आया कि इंटेलीजेंस और पुलिस की चौकियां लंबे समय से बंद पड़ी हैं। बीकानेर जिले की करीब 170 किमी सीमा पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की सक्रियता तकरी और साइबर

अटैक ने जिले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इसके बावजूद इंटेलीजेंस और पुलिस की चौकियां बोनान है। खाखुवाला, रणजीतपुरा, दंतौर, छत्तरगढ़, बज्जू, लुणकरणसर में बीआई है। इनमें से रणजीतपुरा और दंतौर बीआई को अस्थाई रूप से चलाया जा रहा है। इन दोनों के साथ ही पुराल में बीआई शुरू करने के प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजे गए थे जिन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। पुलिस की चौकियां भी

स्टॉफ और संसाधनों के अभाव में सूनी हैं। खाखुवाला में पाक बॉर्डर पर 32 हैड और सिसाडा पुलिस चौकी पर पर ना तो स्टॉफ है और और ना ही संसाधन। रणजीतपुरा थाने की में बॉर्डर के पास 95 आरआई चौकी खोली जानी थी जिसके लिए तीन बीघा जमीन की आवश्यकता बताई गई। अभी तक जमीन ही अलॉट नहीं हो पाई है। बीकानेर में रणजीतपुरा, पुराल और दंतौर बीआई पोस्ट की आवश्यकता बताई गई। इन इलाकों में संदिग्ध लोगों

के आवागमन, हेरोइन की डिलीवरी लेने वालों का आना-जाना और पाक की ओर से फोन, व्हाट्सएप के जरिये भारतीय सीमा में लोगों से संपर्क को देखते हुए उन्हें सतर्क और जागरूक करने का कारण बताया गया।

आईजी बीकानेर रेंज ओमप्रकाश का कहना है कि बॉर्डर इलाकों में पुलिस चौकियों को सक्रिय करने के लिए कहा गया है, जहां स्टॉफ और संसाधन की आवश्यकता है, वहां उपलब्ध करवाए जाएंगे।

सड़क हादसे में पति की मौत, पत्नी घायल

हॉस्पिटल में भर्ती भाई से मिलकर गांव जा रहे थे, रास्ते कार ने बाइक को टक्कर मार दी

पाली, (नि.सं.)। पाली में हुये सड़क हादसे में पति की मौत हो गई। वहीं पत्नी घायल हो गई। दोनों हॉस्पिटल में भर्ती भाई से मिलकर गांव जा रहे थे, बीच रास्ते कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसा हो गया।

पुलिस के अनुसार पाली शहर के निकट स्थित कुरणा गांव निवासी 52 वर्षीय पुरुष राम पुत्र मूलाराम खारवाल 48 वर्षीय मैना देवी के साथ गुरुवार को बाइक से पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती अपने चचेरे भाई भीमा राम से मिलने आए थे। वापस दोनों पति-पत्नी बाइक से कुरणा गांव जाने के लिए गुरुवार शाम को खाना हुआ। कुरणा गांव के निकट इनकी बाइक को तेज रफ्तार में आ रहे कार सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों पति-पत्नी उछलकर नीचे गिरे। इलाज के लिए दोनों को बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रेफर किया गया।

परिजन एम्बुलेंस से उन्हें अहमदाबाद लेकर खाना हुए। लेकिन आबूरोड के निकट पूरा राम को मौत हो गई। ऐसे में बाँड़ी के साथ घायल मैनादेवी को भी वापस पाली लाया गया। शुक्रवार सुबह पूरा राम को बाँड़ी पुलिस ने पाली के बांगड़ हॉस्पिटल की माँचुरी में शिफ्ट करवाई। वहीं घायल मैनादेवी का शहर के निजी हॉस्पिटल में उपचार जारी है। मृतक के रिश्तेदार अशोक कुमार ने बताया कि पूरा राम अपने परिवार के साथ पिछले कई सालों से अहमदाबाद के ईशनपुरा में रहे रहे हैं। वहां उनका जनरल स्टोर है। उनके पिता मूलाराम का देहांत हो गया था। 19 अप्रैल को गंगाप्रस्थी थी। ऐसे में वे परिवार सहित अहमदाबाद से कुरणा गांव आए हुए थे। गुरुवार को बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती अपने चचेरे भाई भीमा राम से मिलकरदोनों पति-पत्नी वापस गांव जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया।

परीक्षाओं का आयोजन तीन से

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 3 से 7 मई तक अजमेर जिला मुख्यालय पर विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। परीक्षाओं के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर परीक्षा दिनांक से तीन दिवस पूर्व जारी किए जाएंगे।

आयोग सचिव ने बताया कि पीटीआई एंड लाइब्रेरियन (संस्कृत कोशरक्षिका विभाग) परीक्षा-2024 के तहत प्रश्न-पत्र तृतीय (जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान) की परीक्षा 3 मई को दोपहर 3.30 बजे से 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। लाइब्रेरियन के पदों के लिए 5 मई को प्रश्न-पत्र प्रथम की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक एवं प्रश्न-पत्र द्वितीय की परीक्षा दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए 6 मई को प्रश्न-पत्र प्रथम की परीक्षा प्रातः 9 से 12 बजे तक एवं प्रश्न-पत्र द्वितीय की परीक्षा दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। 7 मई को माईंस एंड जियोलाजी डिपार्टमेंट के लिए असिस्टेंट मार्शिंग इंजिनियर परीक्षा-2024 का आयोजन सुबह एवं जियोलाजिस्ट परीक्षा-2024 का आयोजन दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक किया जाएगा।

श्रीगंगानगर में व्यवसायी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा

पीएनबी बैंक घोटाले में व्यापारी के ठिकानों पर मारी रेड, घर व दुकानों पर सर्वे जारी

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां शुक्रवार को सुबह से ही एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने स्थानीय व्यवसायी अमनदीप चौधरी के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा शुरू की। यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के मामले में की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह छापेमारी व्यापारी अमनदीप चौधरी के आवास और धानमंडी स्थित कार्यालय सहित अन्य व्यापारिक ठिकानों पर जारी है। कार्रवाई सुबह से ही प्रारंभ हुई और इसमें ईडी की जयपुर व दिल्ली यूनिट की संयुक्त टीमें शामिल हैं। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात है। सूत्रों के अनुसार, अमनदीप चौधरी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से करोड़ों रुपए की लोन राशि प्राप्त करने और उसे अन्यत्र उपयोग

■ कार्रवाई सुबह से ही प्रारंभ हुई, इसमें ईडी की जयपुर व दिल्ली यूनिट की संयुक्त टीमें शामिल हैं

में लेने का आरोप है। इस संबंध में उनके विरुद्ध पहले से ही जोधपुर में धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला दर्ज है। ईडी अधिकारियों ने अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जब्त किए हैं। जांच एजेंसी द्वारा बैंक लेन-देन, अचल संपत्तियों और संबंधित खातों की भी गहन जांच की जा रही है। ईडी सूत्रों का कहना है कि यदि आवश्यक हुआ तो आने वाले दिनों में अन्य संबंधित व्यक्तियों के भी ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। साथ ही अमनदीप चौधरी से पूछताछ हो सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक, श्रीगंगानगर के

रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। प्रष्ठाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने राजसमंद जिले के रिछेड़ और थुरावड़ के पटवारी राहुल सुखीजा को सात हजार रूपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार पटवारी राहुल सुखीजा थुरावड़ स्थित कच्चे शुदा जमीन को राजस्थान भू अधिनियम की धारा 91 के तहत रिकॉर्ड में लेने एवं नोटिस जारी करने की एवज में परिवारी से 10 हजार रूपए रिश्वत मांग रहा था। नहीं देने पर परिवारी को परेशान किया जा रहा था। एसबी डीआईजी राजेन्द्र प्रसाद गोयल ने बताया कि पटवारी राहुल सुखीजा पुत्र भवन सुखीजा को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल सुखीजा रिछेड़ पटवार मंडल का पटवारी है और वर्तमान में थुरावड़ पटवारी का उसके पास अतिरिक्त कामभार है। परिवारी ने एसबी कार्यालय में राहुल सुखीजा के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि परिवारी की थुरावड़ स्थित कब्जेशुदा जमीन को धारा 91 के तहत रिकॉर्ड पर लेने और नोटिस जारी करने की एवज में पटवारी राहुल परिवारी से 10 हजार रूपए रिश्वत मांग रहा है और नहीं देने पर परिवारी को परेशान किया जा रहा है। इस पर एसबी ने शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। शुक्रवार को एसबी टीम ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए पटवारी राहुल सुखीजा को एक नाबालिग बालक के मार्फत सात हजार रूपए रिश्वत लेते रहे हाथों गिरफ्तार किया है।

विवाहिता से दुष्कर्म

बीकानेर, (निसं)। यहां एक पुलिस थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि संदीप से जान-पहचान थी। वह घर आता-जाता रहता था। उसने मौका देखकर घर में घुसकर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींच लिए। अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर महिला को ब्लैकमेल करने की कोशिश में था।

कार से 29 लाख का डोडा-पोस्ट जब््त

टोंक, (निसं)। घाड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कार में से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्ट जब्त किया है। जब्त माल का वजन 194.555 किलो है, इसकी अनुमानित लागत 29 लाख 18 हजार 355 रुपए से ज्यादा है। यह कारवाई पुलिस ने सरोली मोड़ के पास जयपुर-कोटा नेशनल हाइवे 52 के पास की है। अज्ञात

आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाजा जारी है। घाड़ थाना प्रभारी हरिराम वर्मा ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस संरक्षक प्रयास कर रही है। विकास भगवान के निदेश पर नाकाबंदी, मुखबीर आदि को और ज्यादा सक्रियता से काम कर रही है। नाकाबंदी के सघन चेकिंग की जा रही है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड, द्वितीय उदयपुर	
क्रमांक:अअ/जिख/अभिय/2025-26/146-156	दिनांक: 15.04.2025
ई-निविदा सूचना संख्या 06-09 / 2025-26	
खण्ड कार्य क्षेत्र में विभिन्न उपखण्डों के विभिन्न ग्रामों की पेयजल योजना संबंधित विभिन्न कार्य (रु. 11.93 से 120.00 लाख तक) के की आमंत्रित की जाती है जो कि दिनांक 26.04.2025 को 18.00 बजे प्राप्त की जावेगी। निविदाओं का विस्तृत विवरण राज्य सरकार के उपान पोर्टल http://eproc.rajjasthan.gov.in/ http://sppp.rajjasthan.nic.in पर देखे जा सकता है।	
NIB Code: PHE2526A0471	
UBN No. -PHE2526WSOB001097, PHE2526WSRC01098	
PHE2526WSOB01099, PHE2526WSOB01100	
अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड, द्वितीय उदयपुर	
DIPR/C/5347/2025	

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय, बीकानेर	
पी.एच.ई.डी. कैम्पस, इण्डस्ट्रियल एरिया, के.डी. कॉम्प्लेक्स के पास, राविका, बीकानेर (334001)	फोन-0141-2226475 ई-मेल- phedbidit@gmail.com
teddy2.bil.phed@rajasthan.ger.in	Latitude 28.0005256 Longitude 73.3249120
क्रमांक :-360-64	Notice Inviting Bid:- 20 to 24/2025-26 दिनांक:-16/04/2025
Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 28-04-2025 at 15.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.rajjasthan.nic.in & http://eproc.rajjasthan.gov.in/ of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 169.52 lacs.	
NIT No.	20 21 22 23 24
UBN No.	PHE2526 WSOB01250 PHE2526 WSOB01251 PHE2526 WSOB01252 PHE2526 WSOB01254 PHE2526 WSOB01255
(रमेश कुमार रागर) अधिशाषी अभियन्ता	
DIPR/C/5271/2025 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड-II, बीकानेर	

राजस्थान सरकार कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड प्रथम, जयपुर	
सी-ब्लॉक, बेसमेंट, स्वास्थ्य भवन, तिरक मार्ग, सी-ब्लॉक, जयपुर-302005 (राज.), फोन: 0141-2229737	दिनांक: 15.4.2025
क्रमांक: 77	
ई-निविदा सूचना संख्या: 03/2025-26	
राजस्थान के उपचलपात महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत "Construction of Trauma Center at Raisar, Distt. Jaipur" कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग / राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में वकीकृत अनुभवी संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों, से निर्माणित प्रश्न में ई-प्रोक्यूमेंट निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण की वेब साइट www.dipronline.org www.sppp.raj.nic.in http://eproc.rajjasthan.gov.in व निविदा विवरण वेब साइट http://rajjawasthya.nic.in पर देखा जा सकता है।	
UBN 1. NRH2526WSOB00100	
अधिशाषी अभियन्ता	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खण्ड प्रथम, जयपुर	
DIPR/C/5298/2025	

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (एस एंड पी-सी) मीटर रीडर व उपर, नगर पोर्षर इलाक़, जोधपुर -342003	फोन नं. 0291-2970134,0291-2970135, Email-sameerjod@rajasthan.gov.in
ई-निविदा हेतु सूचना	
इस कार्यालय द्वारा घोष्य बोलीदाता से ई-तकनीकी-वाणिज्यिक एवम् मूल्य निविदाएं U/SE (M&P-P-C)/TN-68 (यूबीएन JV2526SLOB00049), NIB JV2526A0023आमंत्रित की गई है जिसका विवरण डाउनलोड की समाप्ति दिनांक निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तथा निविदा खुलने की दिनांक इत्यादि का विवरण वेबसाइट energy.rajjasthan.gov.in/djvn1 और www.sppp.rajjasthan.gov.in पर उपलब्ध है। निविदादाता को उनके स्वयं के हित में सहायी दी जाती है कि ऑन लाइन वेबसाइट www.eproc.rajjasthan.gov.in पर निविदा डालने से पहले निविदा दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें।	
अधीक्षण अभियन्ता (एस एंड पी-सी) जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर	
वज.सं.वज./सी/25/1332	
बिजली संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6045	

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर जिला परिषद, झालावाड	
क्रमांक-161	दिनांक- 15.04.2025
NOTICE INVITING BID	
NIB NO 04/2023-24	
Bids for NRM Works (ANICUT, PCD, GABION STRUCTURE, RECHARG SHAFT, etc) Under PMKSY-2.0 Project area in Block AKLERA, BAKANI, DAG, PIRAWA (04 Package-4 WORK) of estimated value INR 376.50 Lacks are invited from interested bidders up to 6.00 PM 2025. Technical Bid of submitted tender opened on 28-04-2025 at 11.00 AM.	
Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajjasthan.gov.in or http://sppp.rajjasthan.gov.in/) of the state.	
NIB NO-WSC2526A0043	
UBN NO. -WSC2526WSOB00061, WSC2526WSOB00062, WSC2526WSOB00063, WSC2526WSOB00064	
(Jeeb Mail Nagar) SE& PM, WCDC, ZILA PAIRSHAD, JHALAWAR DDO CODE NO. 28607	
DIPR/C/5324/2025	

राजस्थान सरकार निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर	
क्रमांक निदे/अ.अ.अ. नीलामी / निलामी (ERCC/RCC/10)/2025-18-10884	
ई-नीलामी विज्ञप्ति संख्या- (ERCC/RCC/10) 2025	
सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि राजस्थान अध्रधान खनिज रियायत नियमानवली, 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विज्ञप्ति से अप्रधान खनिजों के प्रमाणीशील खनन पट्टा/खजारी लाईसेंस व परमिट क्षेत्रों से निर्माणित होने वाले खनिजों पर अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, परमिट शुल्क, विमियम शुल्क, डी.एम.ए.टी., आर.एस.एम.ई.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 52 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर इच्छुक बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे-ठेका क्षेत्र, खनिज, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एवं मुख्य शर्तें विभागीय वेबसाइट www.mines.rajjasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध हैं।	
(दीपक तंवर), निदेशक	
DIPR/C/5243/2025	

कार्यालय नगर पालिका सुल्तानपुर जिला कोटा (राज.)	
E-mail id :- npsulttanpur01@gmail.com	Phone No. 07455-294166
क्रमांक. नपासु / 2025-26 / 168-69	दिनांक - 24.04.2025

ई-निविदा-सूचना	
इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या 162-63 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा कुल 7 कार्य की अनुमानित लागत 166.00 लाख की किसी भी राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमान एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970 एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदको से ऑनलाईन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित समस्त विवरण http://eproc.rajjasthan.gov.in व www.sppp.rajjasthan.gov.in पर उपलब्ध है।	
Work No.	UBN No.
1	DLB2526SLOB02696
2	DLB2526SLOB02697
3	DLB2526SLOB02698
4	DLB2526SLOB02699
5	DLB2526SLOB02700
6	DLB2526SLOB02701
7	DLB2526SLOB02702
प्रशासक	
नगर पालिका सुल्तानपुर	
राज.सं.वा.द./सी/25/1308	
अधिशाषी अधिकारी	
नगर पालिका सुल्तानपुर	

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड प्रथम कोटा

-: निविदा सूचना संख्या - 01/2025-26:-

UBN code:-PHE2526WSOB01079

समुचित वर्ग के सुवीर्य्य सक्षम उद्देश्यों से विभाग के निम्न कार्य करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से राजस्थान लोक उपान में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत उपचल कार्यो से सम्बन्धित सेवाओं के उपपानों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशानुसार ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु नियमानुसार विहित आदेश चलायते देते के पश्चात निविदा हेतु पात्र होंगे, निर्माणित प्रश्न में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं दो लिफाफा पद्धति में आमंत्रित की जाती है। निविदा पत्र ऑनलाइन वेबसाइट <http://www.eproc.rajjasthan.gov.in> से दिनांक 22.04.2025 प्रातः 10:00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ऑनलाइन निविदाई इसी वेबसाइट पर इच्छुक संवेदकों द्वारा दिनांक 22.04.2025 से दिनांक 01.05.2025 तक सांय 6:00 बजे तक उपलब्ध किये जा सकते हैं। वेबसाइट पर उनके समुच्चय दिनांक 02.05.2025 को इस कार्यालय में सांय 4:00 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके आगेति दिन कार्य दिवस को उसी समय पर निविदा खोली जावेगी। निविदा शुल्क/प्रक्रिया शुल्क निविदादाता द्वारा ऑन लाईन चालान द्वारा निविदा प्रश्नो में वर्णन अनुसार इस कार्यालय में सभी निविदा प्राप्ति की दिनांक 02.05.2025 तक को दोपहर 01:00 बजे तक जमा करवना आवश्यक है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निर्माणित वेबसाइट पर देखा जा सकते हैं:-

- 1 <http://phedwater.rajjasthan.gov.in>
2. www.dipronline.org
3. <http://www.eproc.rajjasthan.gov.in>
4. <http://sppp.rajjasthan.gov.in>

“जल ही जीवन है”

DIPRC/S5317/2025

(प्रकाश श्री नाथानी), अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, नगर खण्ड प्रथम कोटा

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने पहलगाम हमले के विरोध में आतंकवादियों का पुतला फूँका



कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए बर्बर हमले के खिलाफ आज राजधानी जयपुर के बड़ी चौपड़ पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया।



जयपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक गोपाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्टैचू सर्किल पर कैंडल मार्च निकाला और दो मिनट का मौन रखा।

जयपुर। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए बर्बर हमले के खिलाफ आज राजधानी जयपुर के बड़ी चौपड़ पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया और पाकिस्तान के झंडे को जलाकर

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रदेश के दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीद निर्दोष नागरिकों को खिराज-ए-अकीदत पेश किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने कहा, “आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत इसकी हर

■ **सर्व मुस्लिम समाज ने एकजुटता दिखाते हुए आतंकी हमले का किया विरोध**

सुरत में निंदा करता है और इससे सख्ती से निपटेगा।” उन्होंने आगे कहा कि “भारत में हिंदू और मुस्लिम एक हैं। आज पूरा मुस्लिम समाज अपने हिंदू

भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। यही एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।” हमीद खान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए सभी द्विपक्षीय समझौते तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। यह निर्णय पाकिस्तान द्वारा लगातार आतंकवाद को संरक्षण देने के चलते लिया गया है। उन्होंने बताया

कि जुम्मे की नमाज के बाद शहर की सभी प्रमुख मस्जिदों में आतंकवाद के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया, शहीदों के लिए दुआएं की गईं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे जलाए गए। मुस्लिम समाज ने प्रधानमंत्री से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग की। इस अवसर पर मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान, पूर्व प्रदेश

अध्यक्ष एम. सादिक खान, फिरोज खान (पूर्व प्रदेश महामंत्री), हिदायत खान, मुनुव्वर खान, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रेशमा हुसैन, जयपुर शहर अध्यक्ष अब्दुल अजीज, शहर महामंत्री परवेज खान, मजीद पठान, मोहम्मद इरशाद खान, उस्मान चौहान, फरमान अहमद, तथा ऋषभ जैन सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

■ **राज्य सरकार पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाकर आरएसएस पद पर नियुक्ति के आदेश**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसएस भर्ती-1999 और 2003 की भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को अनफिट करने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को 21 अप्रैल, 2006 से समस्त बकाया, वरिष्ठता और पदोन्नति के साथ आरएसएस पद पर नियुक्ति देने को कहा है। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता के पेंशन व अन्य परिलाभों के लिए सेवाकाल की गणना सितंबर, 2001 से करने को कहा है। अदालत ने कहा कि योग्यता की स्वीकृति के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में याचिकाकर्ता की आरएसएस पद पर नियुक्ति एक माह में राज्य के मुख्य सचिव की उपस्थिति में दी जाए। इसके अलावा अदालत ने लंबे समय पर याचिकाकर्ता के साथ हुए भेदभाव को देखते हुए राज्य सरकार पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. देवारांम शिवरान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में अधिवक्ता एसपी शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने आरएसएस भर्ती-1999 में भाग लेकर मेरिट में 360वां स्थान प्राप्त किया था। वहीं उसे आंखों का दोष बताकर मेडिकल अनफिट कर नियुक्ति से इनकार कर दिया। इसे चुनौती देने पर अदालत ने सितंबर, 2001 को याचिकाकर्ता के लिए एक परीक्षा देने को कहा। इसके बाद साल 2003 की आरएसएस भर्ती में याचिकाकर्ता ने 21वां स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसे समान आधार पर

अनफिट बताया गया। याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर दूसरे मेडिकल बोर्ड ने परीक्षा किया और उसे अनफिट बता दिया। दूसरी ओर राज्य सरकार ने मेरिट में 22वां स्थान रखने वाली अभ्यर्थी को आरएसएस पद पर नियुक्ति दे दी। याचिकाकर्ता की प्रार्थना के बाद मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित की और उसकी सिफारिश पर याचिकाकर्ता को लेखा सेवा में नियुक्ति दी गई। याचिका में कहा गया कि वह बीते दो दशक से लेखा सेवा में काम कर रहा है और शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है। एकलपीठ ने उसके विधिक अधिकारों की रक्षा करते हुए उसके लिए एक परीक्षा देने को कहा था। ऐसे में उसे आरएसएस कैडर में नियुक्ति दी जाए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता दिव्यांग है और आरएसएस व आईएसएस भर्ती में साल 2005 व 2007 से दिव्यांग आरक्षण दिया जाने लगा है। इससे पूर्व की भर्तियों में दिव्यांग आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इसके बावजूद उसके रिकॉर्ड को देखते हुए उसे राज्य सरकार ने शिथिलता देते हुए लेखा सेवा में नियुक्ति दी।

वर्ष 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये चरणबद्ध रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ना है : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने राज्य बजट 2024-25 के दौरान 10 संकल्प पेश किए थे। इन्हीं संकल्पों को आधार बनाते हुए विकसित राजस्थान की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके लिये विकास की चार थीम के आधार पर विभिन्न विभागों के प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के आगामी बजट भी विकसित राजस्थान की संकल्पना का दर्पण होंगे। शर्मा ने कहा कि हमें वर्ष 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्राथमिकता तय करते हुए चरणबद्ध रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। इसके लिए सर्वप्रथम वर्ष 2030 तक के विकास का रोडमैप तैयार करते हुए हमें मजबूती से कदम बढ़ाने होंगे। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट को सरल भाषा में तैयार कर आमजन तक पहुंचाएं तथा उनके अमूल्य सुझाव प्राप्त कर उन्हें इस डॉक्यूमेंट में शामिल करें।

शर्मा ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में विकसित राजस्थान का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य सरकार के साथ ही 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तैयार विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

कि राज्य का प्रत्येक नागरिक समर्पण भावना के साथ प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपना योगदान देगा तभी हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तैयार विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान का

लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें भौतिक विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए लक्ष्य तय करने होंगे। इसके लिए कार्ययोजना बनाते समय हमें भविष्य की आवश्यकताओं तथा जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों को ध्यान में रखना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश की समग्र विकास यात्रा में संतुलन बनाकर चलना आवश्यक है। उन्होंने

कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के असंतुलन को दूर करते हुए हमें ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है जिससे ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन रूके तथा शहरों पर बढ़ता दबाव कम हो। श्री शर्मा ने कहा कि हम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं

- ‘विजन डॉक्यूमेंट को सरल भाषा में तैयार कर आमजन तक पहुंचाएं’
- ‘गांवों से शहरों की तरफ पलायन रूके’

सुनियोजित दोहन करते हुए विकास करें जिससे भावी पीढ़ी को संसाधनों की कमी न हो।

शर्मा ने कहा कि बदलते समय और बढ़ती आबादी के साथ परिवहन क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ेगा। ऐसे में हमें सार्वजनिक परिवहन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करते हुए बेहतर यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री ने पीएचईडी से संबंधित लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पानी के लिए हम पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं, इसकी बचत ही आपूर्ति है। वर्षाजल का सुनियोजित प्रबंधन और भूमि की वाटर रिचार्ज क्षमता को बढ़ाकर जल संकट से बचा जा सकता है। इस दौरान राज्य स्टीयरिंग कमेटी में शामिल विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्चाधिकारियों सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की।

जयपुर। जयपुर कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने गर्मी एवं हीटवेव के दौरान मौसमी बीमारियों को लेकर सभी चिकित्सा अधिकारियों को सभी चिकित्सालयों में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिये गए हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा कर ये निर्देश दिए। कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारियों को राजकीय

चिकित्सालयों में दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों, चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने एवं पंच गौरव के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिये। कलेक्टर ने डीटीएफआई की बैठक में जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान की समीक्षा कर कम टीकाकरण करने वाले ब्लॉक्स में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिले में 24 अप्रैल को प्रारंभ हुए विश्व टीकाकरण सप्ताह

पर चर्चा हुई जिसमें लाभार्थियों को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु टीके लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों पर चर्चा कर एंटी लार्वा गतिविधियों व लू तापपात से बचाव के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पंच गौरव अभियान के तहत उन्होंने सभी चिकित्सा संस्थानों पर अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। राजश्री योजना की द्वितीय किस्त अपडेट करने के निर्देश दिए।

निलंबित उप निरीक्षक मनीष कुमार मीना सेवा से बर्खास्त

जयपुर। निलंबित उप निरीक्षक मनीष कुमार मीना सीआईडी बीआई पोस्ट नाचना जैसलमेर हाल मुख्यालय सीआईडी (विभाग) जयपुर निवासी त्राम व पोस्ट दुलेती की डागी इन्दावा त्रामसील लालसोट जिला दौसा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में आईजी इंटेलिजेंस डॉ विजय कान्त द्वारा निर्णय प्रसारित किया गया है। आईजी डॉ विजय कान्त ने बताया कि राज्य विशेष शाखा में पदस्थापित उप निरीक्षक मनीष कुमार मीना 1 अप्रैल 2024 से ड्यूटी से स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित चल रहा था। उप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में पाक से किए गए समझौते को रद्द करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान शुरू

राज्य के नवगठित जिलों के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन

जयपुर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर नव गठित जिलों फलीदी, बालोतरा, ब्यावर, सलूबर, डींग, डोडवाना-कुचमन, खैरथल-तिजारा एवं कोटपूतली-बहरोड़ के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव भगवंत सिंह ने बताया कि जिले में प्राधिकरण के अध्यक्ष संबंधित जिले के कलेक्टर होंगे तथा जिला परिषद प्रमुख सह अध्यक्ष होंगे। इसी प्रकार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, सार्वजनिक निर्माण विभाग व जल संसाधन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी प्राधिकरण के सदस्य होंगे तथा उपर जिला मजिस्ट्रेट

मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। उन्होंने बताया कि जिले से निर्वाचित लोकसभा सांसद, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक एवं जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी प्राधिकरण के स्थायी आर्मांत्रित होंगे। इसके अतिरिक्त जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विशेष परिस्थितियों में आवश्यक समझे जाने पर किसी भी व्यक्ति को विशेष आर्मांत्रित किया जा सकेगा। साथ ही आवश्यक समझे जाने पर प्राधिकरण द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के अधीन विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को भी शामिल किया जा सकेगा।

खड़गे की जयपुर में संविधान बचाओ रैली की तैयारी बैठक

जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जयपुर में 28 अप्रैल को प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली के लिये आज जयपुर शहर कांग्रेस कार्यालय रामचंद्र जी का मंदिर हवा महल के सामने जयपुर पर तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक एआईसीसी सचिव राजस्थान प्रभारी पुनम पासवान के मुख्य आतिथ्य, जिला प्रभारी धर्मेश राठौड़ एवं जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी के नेतृत्व में की गई। संगठन महासचिव सीताराम शर्मा नेहरू ने बताया कि जयपुर शहर के आठ विधानसभा के विधायक और विधायक प्रत्याशी और ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने विधानसभा से एक 1000-1000 कार्यकर्ताओं में रैली में लाने का आश्वासन दिया।

योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दिया जाये : डॉ. किरोड़ी लाल मीणा

जयपुर। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं को प्लानिंग के साथ तय समयावधि में पूरा करें। योजनाओं द्वारा आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लाभान्वित किया जाये। किसी भी योजना

■ **‘बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन प्लानिंग के साथ तय समयावधि में पूरा करें’**

में किसी प्रकार का लीकेज न हो, सभी एक टीम भावना से कार्य करें, जिससे हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। ग्रामीण विकास मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेन्स नीति अपनाये जाने के निर्देश प्रदान किये। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर के सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन संचालन के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने कहा कि योजनाओं की श्रमिकों की उपस्थिति नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) द्वारा की जा रही है। इस उपस्थिति की मॉनिटरिंग राज्य स्तर, जिला स्तर और



डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर के सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

ब्लॉक स्तर पर टीम गठित कर ऐप के माध्यम से की जा रही है, जिससे प्रतिदिन 5 से 7 लाख फर्जी श्रमिकों के नियोजन पर रोक लगी है। एनएमएस के माध्यम से दर्ज की जा रही श्रमिक उपस्थिति में गुणवत्तापूर्ण सुधार हुए हैं। फर्जी श्रमिकों के नियोजन पर रोक लगी है। कार्य स्थल पर वास्तव में उपस्थित श्रमिकों को ही भुगतान किया जा रहा है। नरेगा कार्यों में एनएमएस द्वारा की गई जांच में सर्वाधिक अनियमितता पाये जाने वाले 12 जिलों की 130 ग्राम पंचायतों में समितियां गठित कर जांच कराई जा रही है। इस तरह से एनएमएस द्वारा राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर जांच करने का नवाचार है, जिसकी भारत सरकार ने भी सराहना की है।

उन्होंने बताया कि राज्य की समस्त 11214 ग्राम पंचायतों में पंचायत पौधाशालाओं को विकसित करने

के 2.07 करोड़ पौधों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण माह अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग एवं जल संग्रहण विकास को इस वर्ष संयुक्त रूप से 32 करोड़ पौधे लगाये जाने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि लगाये गये सभी पौधों की पूरी देखभाल की जाये। गर्मियों में पानी की व्यवस्था करें और सभी पौधों को जियो टैग से जोड़ा जाये। सभी जिलों के अधिकारियों को 7 दिवस में गत वर्ष लगाये गये पौधों में से नष्ट हुए पौधों की रिपोर्ट बनाकर 7 दिवस के अंदर विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की भौतिक व वित्तीय प्रगति की जानकारी ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और आतंकियों के मनोबल को तोड़ने का किया काम : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पहलगाम आतंकी हमले पर विरोध जताते हुए कहा कि पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारना, यह आतंक की पराकाष्ठा है और भारत इसे कभी भी बर्दास्त नहीं करेगा। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। देश का प्रत्येक नागरिक आज उद्बलित है और पीएम मोदी से आतंक को जड़ से समाप्त करने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में पाक से किए गए समझौते को रद्द करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान शुरू

- **‘पहलगाम आतंकी हमले से देश उद्बलित, भारत नहीं करेगा बर्दाश्त’**
- **‘पाकिस्तान से किए गए समझौते रद्द करना पीएम मोदी का ऐतिहासिक फैसला’**

से ही आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भारत में अस्थिरता पैदा करता आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, अब जल समझौता रद्द करने, बाघा बॉर्डर को बंद करने, आवागमन बंद करने और 48 घंटे

में देश छोड़ने के आदेश जारी करने जैसे कड़े फैसले लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान और आतंकियों के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ओर पाक से समझौते रद्द करने का फैसला किया, वहीं दूसरी ओर सेना को भी सर्व और शुट करने के आदेश

होटल कर्मियों से मारपीट व तोड़फोड़ करने के आरोपियों का जुलूस निकाला

गिरफ्तार आरोपियों ने राजीनामा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी

सिंधाना, (निर्सं)। सिंधाना पुलिस ने होटल कर्मचारियों से मारपीट कर तोड़फोड़ करने के गिरफ्तार दो आरोपियों का जुलूस निकाला। गिरफ्तार आरोपियों ने राजीनामा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

थानाधिकारी रामसिंह यादव ने बताया कि मिश्रावाली ढाणी सिंधाना निवासी मंगेजाराम सैनी ने 14 अप्रैल को रिपोर्ट दी कि वह और उसका भाई मुकेश सैनी बुहाना बस स्टैंड पर होटल चलाते हैं। सोमवार को जैसाराम की ढाणी भोदन निवासी सचिन सिराधना उर्फ छोदू व सिंधाना निवासी अर्जुन उर्फ मोरिया नायक अपने 4-5 साथियों के साथ होटल पर आया। उन्होंने उधार में खाना मांगा। मंगेजाराम ने पहले का बकाया चुकाने को कहा। इस पर आरोपियों ने धमकी दी कि उधार में खाना देना पड़ेगा, नहीं तो होटल बंद करवा देंगे और जान से मार देंगे। तब वे गाली-गलौच कर चले गए। रात करीब 11 बजे सचिन, अर्जुन



सिंधाना पुलिस ने होटल कर्मचारियों से मारपीट करने के गिरफ्तार दो आरोपियों का जुलूस निकाला।

और उनके साथी दोबारा होटल में आए और लाठी-डंडों से होटल के कर्मचारी कृष्ण सैनी व शेरसिंह सैनी के साथ मारपीट की। कांडटर सहित सामान तोड़ दिया। गल्ले से 35 हजार रुपए निकाल लिए। आरोपियों ने जाते समय

धमकी दी कि पुलिस में रिपोर्ट दी तो जान से मार देंगे।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। इस दौरान

पुलिस ने 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर मुखबिर की सूचना पर निजामपुर के कारोली मारोली पहुंचे तो वहां पर दबिश देकर जैसा की ढाणी भोदन निवासी सचिन उर्फ छोदू पुत्र हजारीलाल व टीकुपुरा निवासी

■ पुलिस ने 150 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर निजामपुर के कारोली मारोली पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया था

श्रीपाल उर्फ हिल्लीया पुत्र कैलाश चंद गुर्जर को गिरफ्तार कर था। आरोपियों ने फोन कर धमकी देकर व्यापारियों में दहशत फैलाई थी, जिस पर पुलिस ने दोनों बदमाशों को घटनास्थल पर ले जाया गया तथा मौके की तस्दीक करवाने के बाद उनका जुलूस निकाला गया। थानाधिकारी ने बताया कि कस्बे में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए, जिससे समय रहते अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके।

साथी की जमानत हुई तो तमाशा करने पहुंचे बदमाश, 1 2 गिरफ्तार

पुलिस ने “टीम 5172 ग्रुप” स्टीकर लगी सात गाड़ियों को भी जब्त किया

झुंझुनूं, (निर्सं)। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को प्रो एक्टिव पुलिसिंग करते हुए जिला जेल के बाहर से एक हिस्ट्रीशीटर समेत 12 जनों को गिरफ्तार किया है। शांतिभंग की आशंका में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके से टीम 5172 ग्रुप का स्टीकर लगी सात गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। इनमें कुछ गाड़ी हरियाणा के नंबरों की है।

झुंझुनूं के गुढागौड़जी थाना इलाके के टीडी गांव में गत दिनों चर्चित जमीनी विवाद में गिरफ्तार कर जेल में बंद आरोपी धर्मेंद्र जाट और विनोद जाट को कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी थी,

■ चर्चित जमीनी विवाद में गिरफ्तार कर जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी थी

जिसके बाद शुक्रवार को दोनों ही आरोपी जेल से बाहर निकलने वाले थे। अपने दोनों साथियों को अपने साथ ले जाने के लिए गुढागौड़जी थाने का हिस्ट्रीशीटर विकास फौजी और उसके कुछ साथी आ रहे हैं, जो जिला जेल के बाहर खड़े हैं। काफी गाड़ियां भी हैं। जिस पर शहर कोतवाल हरजिंदर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जब विकास फौजी और उसके साथ आए युवकों से पूछताछ की तो वो कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। जिस पर

कोतवाली पुलिस ने विकास फौजी और उसके 11 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से कैपर, स्कॉर्पिओ आदि सात गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में हनुक्मपुरा निवासी मोहित पुत्र सुभाष जाट, गुढागौड़जी कस्बे के वाई नंबर आठ निवासी सुनिल पुत्र रामप्रताप जाट, भोड़की निवासी राजेन्द्र पुत्र भारमल जाट, जितरवालों की ढाणी निवासी प्रदीप सिंह पुत्र प्रकाशचंद जाट, रघुनाथपुरा निवासी विकास पुत्र

शिवकरण जाट, भोड़की निवासी अमित पुत्र सुधीर जाट, छऊ निवासी निर्मल

पुत्र मनोज कुमार जाट, गुमाना का बास तन छऊ निवासी महेन्द्र पुत्र शिशुपाल सिंह जाट, भोड़की निवासी अजय कुमार पुत्र रामप्रताप सिंह जाट, गुढागौड़जी के वाई नंबर चार निवासी सूरज पुत्र प्रकाश जाट तथ वाई नंबर आठ निवासी पंकज पुत्र बाबूलाल जाट शामिल है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार 5172 ग्रुप जेल से बाहर आने वाले जमीनी विवाद के आरोपी विनोद जाट का ही बताया जा रहा है। हालांकि इस बारे में पुलिस कोई पुष्टि नहीं कर रही है।

फलासिया में प्रशासन ने बाल विवाह रूकवाया

उदयपुर, (कासं)। जहां एक ओर शादियां की धूम है वहीं दूसरी ओर इन शादियों की आड़ में नन्हे-मुन्हे बालक-बालिकाओं को भी बाल विवाह जैसे कुुरीति के अंधेरे में धकलने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। जिले में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जिला कलक्टर के निर्देशन में टीमों सक्रिय हैं। इसी क्रम में टीम ने झाड़ोल फलासिया क्षेत्र में एक बाल विवाह रूकवाया।

बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक के के चंद्रवंशी ने बताया कि गायत्री सेवा संस्थान के निदेशक एवं राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. शैलेंद्र पण्ड्या को फलासिया क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिली। पण्ड्या ने विभाग को अवगत कराया। इस पर चाइल्ड हेल्पलाइन जिला समन्वयक नवनीत औदित्य को कंट्रोल रूम एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से बाल विवाह रोकने के लिए निर्देशित

किया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के मोईन मंसूरी द्वारा कंट्रोल रूम उदयपुर, झाड़ोल फलासिया थाना, फलासिया तहसीलदार एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को टेलिफोनिक सूचना दी एवं जहां शादी हो रही थी उस गांव का क्षेत्र बताया। गायत्री सेवा संस्थान के फौंडर वर्कर राधा कुलम्बी भी मौके पर टीम के साथ पहुंचे। वहां शादी की तैयारी चल रही थी। बालिका के पिता नारायणसिंह, माता पुष्पा कुंवर और सगे-संबंधी मौजूद थे। टीम को देखते ही पहले तो वे शादी की बात से इनकार करते रहे, लेकिन प्रार्थमिक जांच में सामने आया कि बारात शनिवार को आने वाली है। प्रशासन से पहुंचे पटवारी दीपक कलासुआ, सरपंच मोतो लाल और थाना प्रभारी सीता राम, ग्राम विकास अधिकारी अमृतलाल आदि ने उनको पाबन्द किया गया और बाल विवाह की कुुरीति को रोकने के लिए भी आग्रह करते हुए दुष्परिणामों से भी अवगत करवाया।

निलंबित उप निरीक्षक सेवा से बर्खास्त

जैसलमेर, (निर्सं)। निलंबित उप निरीक्षक मनोहरकुमार मीना सीआईडी

■ इयूटी पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था

बीआई पोस्ट नाचना जैसलमेर हाल मुख्यालय सीआईडी जयपुर निवासी ग्राम व पोस्ट दुलेलों की ढाणी इन्द्या तहसील लालसोट जिला दौसा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में आईजी इंटेलिजेंस डॉ. विष्णुकान्त द्वारा निर्णय प्रसारित किया गया है। आईजी डॉ. विष्णु कान्त ने बताया कि राज्य विशेष शाखा में पदस्थापित उप निरीक्षक मनोष कुमार मीना 1 अप्रैल 2024 से इयूटी से स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित चल रहा था। उप निरीक्षक को टीहड़ पर उपस्थित होने के लिए बार-बार रि कॉल नोटिस जारी किया गया, लेकिन वह इयूटी पर उपस्थित नहीं हुआ।

पदोन्नति से 2 8 2 को नायब तहसीलदार बनाया

अजमेर, (कासं)।राजस्व मंडल द्वारा राजस्व विभाग एवं उपनिवेशन विभाग में नियोजित 282 कार्मिकों को पदोन्नति देकर नायब तहसीलदार बनाया गया है। इनमें 274 भू-अभिलेख निरीक्षक तथा आठ उपनिवेशन निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया है।

राजस्व मंडल अध्यक्ष हेमंत कुमार गेरा की अध्यक्षता में हाल ही आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में भू प्रबंध आयुक्त अरुण गर्ग, उपनिवेशन आयुक्त निकया गोहाएन, राजस्व मंडल सदस्य रामदयाल मीणा एवं राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीणा बतौर सदस्य, जबकि राजस्व मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने सदस्य सचिव के रूप में भाग लिया। जारी आदेशों के तहत सभी पदोन्नत कार्मिकों को अपनी उपस्थिति आगामी 15 दिवस की अवधि में संबंधित कार्यालय अध्यक्ष

■ 274 भू-अभिलेख निरीक्षक तथा आठ उपनिवेशन निरीक्षक पदोन्नत

को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नव पदोन्नत नायब तहसीलदारों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे। राजस्व मंडल की ओर से जारी पदोन्नति आदेशों के अनुसार वर्ष 2023-24 के तहत 152 भू अभिलेख निरीक्षकों को नया तहसीलदार तथा वर्ष 2024-25 आयुक्त निकया गोहाएन, राजस्व मंडल सदस्य रामदयाल मीणा एवं राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीणा बतौर सदस्य, जबकि राजस्व मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने सदस्य सचिव के रूप में भाग लिया। जारी आदेशों के तहत सभी पदोन्नत कार्मिकों को अपनी उपस्थिति आगामी 15 दिवस की अवधि में संबंधित कार्यालय अध्यक्ष

छह गिरफ्तार

बौली-बामनवासा, (निर्सं)। सर्वाई मांधापुर जिले की बौली पुलिस थाने के खिरनौ चौकी प्रभारी राजेंद्र गिरी की टीम ने अवैध बजरी खनन व परिवहन की रैकी करने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन बाइक व एक अवैध बजरी से भरी ट्रॉली जप्त करने में सफलता हासिल की है।

बौली पुलिस थाने के हैड कांस्टेबल धर्मेन्द्र चौधरी ने बताया कि खिरनौ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजेंद्र गिरी को सूचना मिली कि डिडवाड़ी की तरफ से अवैध बजरी से भरे कुछ ट्रैक्टर ट्राली खेतों में होते हुए खिरनौ की तरफ आ रहे हैं, जिनकी तीन, चार बाइक पर सवार लड़के पुलिस की रैकी करके निकलवा रहे हैं, इस योजना पर खिरनौ के रामदेव चौराहे पर मय जापे नाकेबंदी कर अवैध बजरी परिवहन की रैकी कर रहे लोकेंद्र सिंह राजपूत, रमेश मीणी, टिंकू मीणा व भरत लाल मीणा एवं राजमोहन मीणा, रमेश मीणा को गिरफ्तार कर तीन बाइक जप्त की है। साथ ही एक ट्रैक्टर चालक अवैध बजरी की ट्रॉली को चलते ट्रैक्टर से मौके पर खोलकर भाग गया।

छह गिरफ्तार

मिलावटी दूध बनाने की सूचना पर खाद्य सुरक्षा टीम पहुंची

कोटपूतली, (निर्सं)। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक व जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के निर्देशानुसार कोटपुतली के गांव नागड़ीवास में मिलावटी दूध बनाने की सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम जांच दल के साथ मौके पर पहुंची।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि गांव नागड़ीवास की वासुदेव डेयरी में अमिल गुर्जर पुत्र कैलाश गुर्जर मौके पर उपस्थित मिले। उन्होंने बताया कि इस डेयरी प्लांट के मालिक वह स्वयं है। निरीक्षण के दौरान दुध प्लांट पर मिलावटी सामानों को पाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान परिसर में 40 किलोमिल्टका पाउडर, 25 किलो वनस्पति, 10 किलो पेस्ट, 15 मिक्सी, दो गैस भिले जिनसे ये करीब 1000 लीटर दूध तैयार कर पिकअप गाड़ी में लोड कर लोटस डेयरी शाहपुरा

झुंझुनूं शहर आज बंद रहेगा

■ जनवादी और मुस्लिम संगठनों ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है

लेकर संपूर्ण देश में रोष व्याप्त है। सभी संस्थानों, व्यापारिक संगठनों एवं एसोसिएशन ने बंद को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग एवं समर्थन देने का निर्णय लिया है। वहीं हिंदूवादी, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने पहलगाम के मामले को लेकर शनिवार को बंद का आह्वान किया है, जिसको जनवादी और मुस्लिम संगठनों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। शुक्रवार को ईदगाह के पास मक्का मस्जिद में जुम्मे की

नमाज के बाद शहर के मुस्लिम और जनवादी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता शहर काजी शफीउल्लाह सिद्दकी ने की। सभी ने पहलगाम की घटना की निंदा की और कहा कि इस तरह का हमला करना बेहद निंदनीय है। इस मौके पर तय किया गया कि शनिवार को झुंझुनूं बंद में जनवादी संगठन एसएफआई, डीवाईएफआई, भगतसिंह विचार मंच आदि भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुस्लिम संगठनों ने भी बंद को समर्थन दिया है। सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि शहर की करीब एक दर्जन से अधिक निजी स्कूलों ने इस बंद में शामिल होने की सहमति दी है। वहीं शहर में आठो भी नहीं चलेंगे।

पहलगाम हमले का विरोध, सैन समाज ने शोभायात्रा स्थगित की

पाली, (निर्सं.)। पाली में सैन समाज ने कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकी हमले का विरोध किया है। समाज के लोगों ने शुक्रवार को सैनजी महाराज की जयंती पर निकलने वाली शोभायात्रा को रद्द कर दिया। सैन समाज के लोग मौन जुलूस में काली पट्टी बांधकर शामिल हुए। सूरजपोल चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर को

प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सैन महाराज की जयंती पर हर साल शोभायात्रा निकलती है। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के कारण शोभायात्रा रद्द कर दी गई। शुक्रवार सुबह विरोध हाथ पर काली पट्टी बांधकर पानी दरवाजा स्थित सैन मंदिर से सैन विकास समिति व क्षोरकार संघ के नेतृत्व में रवाना हुए। शहर के प्रमुख रास्तों से मौन

जुलूस सर्राफा बाजार, घी का झंडा, सोमनाथ मंदिर, सूरजपोल होते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। जहां उन्होंने कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का विरोध जताते हुए आतंकियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मौन जुलूस नवलखा रोड होते हुए पुराना बस स्टैंड के पास स्थित वैद्य सैन समाज बगेची पहुंचे विसर्जित हुआ।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश

अजमेर, (कासं)। राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा-2022 के तहत पात्रता जांच के लिए विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरना होगा। इसके लिए आयोग द्वारा 1 मई से लिंक खोला जाएगा जो कि 7 मई (रात्रि 11.59 बजे) तक उपलब्ध रहेगा। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा का पुनः आयोजन 23 मार्च 2025 को किया गया था। परीक्षा के फलस्वरूप 309 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए 24 अप्रेल 2025 को जारी विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया था। विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आवेदन पत्र ऑनलाइन निर्र्धारित अवधि के भीतर आवश्यक रूप से भर दें।

6 0 0 महात्मा गांधी स्कूलों को हिंदी मीडियम में परिवर्तित करने की चर्चा

बीकानेर, (निर्सं)। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मुद्दा करवाने के लिए पिछली सरकार ने 3737 हिंदी मीडियम स्कूलों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रूपांतरित किया गया, मगर इनमें से 60 फीसदी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और अंग्रेजी भाषा में ट्रेड शिक्षक नहीं होने के कारण पिछले पांच साल में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने के बजाय कम होती गई। अब हालात ये हो गए कि सरकार ने ऐसे स्कूलों को वापस हिंदी मीडियम में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

इंग्लिश मीडियम के इन स्कूलों की हालत देख सरकार ने जनवरी में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एक कौंन्बिनेट सब कमेट्री बनाई थी। कमेट्री के सामने आया कि करीब 600 ऐसे स्कूल हैं जिसमें 10 स्टूडेंट भी नहीं हैं मगर सूत्र बताते हैं कि कमेट्री के सामने ऐसे स्कूलों की संख्या 800 के करीब है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट न करके धीरे-धीरे किया जाए इसलिए ये संख्या कम आंकी गई। बीकानेर में ऐसे स्कूलों की संख्या करीब 80 है। कमेट्री की दो बैठक भी हो चुकी है। दो दिन पहले कमेट्री की रिपोर्ट से

■ स्कूलों की हालत देख सरकार ने जनवरी में डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में कौंन्बिनेट सब कमेट्री बनाई थी

पहले इंग्लिश मीडियम स्कूलों की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। राज्य के करीब 17 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नामांकन शून्य है। जबकि प्रदेश के 3737 स्कूलों में इंग्रिश मीडियम के विद्यार्थियों का औसत नामांकन 132 छात्र ही है। पहली से आठवीं कक्षा में 255 सीटें स्वीकृत हैं। हालात यह है कि प्रदेश के 80 प्रतिशत इंग्लिश मीडियम स्कूलों में निर्धारित सीटें भी नहीं भर पा रही हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में फस्ट फेज में 2019-20 में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक-एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया। वर्ष 2023-24 तक तक कुल पांच फेज में इनकी संख्या 3737 हो गई है। राज्य के इन स्कूलों में 6.76 लाख नामांकन हैं। जिसमें से 1.81 लाख हिंदी मीडियम स्कूल के

छात्र-छात्राएं हैं। जबकि 4.95 लाख इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या है। इन 3737 स्कूलों में 2109 स्कूल 6वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम में संचालित हैं। शेष कक्षाएं हिंदी मीडियम की हैं। इन स्कूलों में अगले त्र सत्र से अंग्रेजी मीडियम की सतर्बवी कक्षा में प्रवेश शुरू होंगे।

राज्य के स्कूलों में एक जुलाई से नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। पिछले साल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 3 मई से शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार अभी तक प्रवेश को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। ऐसे में अभिभावक और शिक्षक दोनों ही इन स्कूलों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अब कमेट्री की रिपोर्ट के बाद तो और अभिभावकों में संशय की स्थिति बन गई।

मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार का कहना है कि अंग्रेजी जाएंगा। कक्षावार 10 से कम नामांकन है ऐसे स्कूलों को वापस हिंदी मीडियम में बदला जाएगा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए हुई चयन परीक्षा में चयनित शिक्षकों का पदस्थापन भी जल्द किया जाएगा।

सांखू फोर्ट ग्राम पंचायत को पंचायत समिति बनाने की मांग, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया

सादुलपुर, (निर्सं)। सांखू फोर्ट ग्राम पंचायत को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर कस्बे सहित क्षेत्र के लोगों विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि हाल में पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव जारी हुआ है, जिसमें सांखू फोर्ट का नाम नहीं है, इसको लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन कर पंचायत समिति नाने की मांग की है।

जानकारी में विरोध-प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा है कि झुंझुनूं-राजगढ़ सड़क मार्ग बनने से सांखू फोर्ट हर क्षेत्र से सीधा जुड़ा है। पंचायत समिति क्षेत्र बनाने सहित समिति मुख्यालय की दृष्टि से यह ग्राम पंचायत संक्षम है। सांखू ग्राम पंचायत में पंचायत समिति की दृष्टि सार्वजनिक भूमि भी उपलब्ध है। भवन व अन्य सुविधाएं उपलब्धता के लिए भी यह उपयुक्त स्थान है। यह राजगढ़ तहसील का सबसे बड़ा गांव है जिसमें में राउमावि, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, पुलिस चौकी, बैंक, उप डाकघर, गोशाला, परिवहन संसाधन, चारों ओर गांवों से



ग्राम पंचायत सांखू फोर्ट को पंचायत समिति मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

सड़क से जुड़ा हुआ है। पंचायत समिति बनाए जाने से सांखू फोर्ट, रावतसर कुंजला, सांखनताल, सुलखनिया, नेशल, लीलावटी, कालानाताल, विजयपुरा, खारियाबास, राऊ टिब्बा, बैजूवा तथा नौरापुरा, सहित कई ग्राम पंचायतों के गांवों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके

बावजूद भी सांखू फोर्ट गांव का नाम प्रस्ताव में नहीं लिया गया है।

ग्रामीणों ने कहा कि यदि शीघ्र ही इस संबंध में कोई करवाई नहीं की जाती है तो कस्बे सहित क्षेत्र के लोगों द्वारा झुंझुनूं से राजगढ़ स्टेट हाइवे का चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

वहीं सरपंच प्रतिनिधि प्रेम सिंह, युवा नेता अंकित दीक्षित, उदावत, प्रतिनिधि सुनील सिंह, युवा नेता अरुण दीक्षित, उम्मेद सिंह तंवर, शिवरतन दीक्षित, प्रदीप भार्गव, सत्यप्रकाश, कैलाश गुर्जर, कुशला राम निमोवाल, कमल भाटी, रामधन प्रजापत, पवन, प्रवीण

■ पंचायत समिति बनाए जाने से सांखू फोर्ट, सांखनताल, रावतसर कुंजला, सुलखनिया, नेशल, लीलावटी, कालानाताल सहित कई ग्राम पंचायतों के गांवों को लाभ मिलेगा

■ ग्रामीणों ने कोई करवाई नहीं होने पर झुंझुनूं से राजगढ़ स्टेट हाइवे जाम कर प्रदर्शन की चेतावनी दी

कुमार, तोफ़ीक लुहार, फारूक खान, रमेश कुमार, महेंद्र कुमार, सुभाष, उम्मेद सिंह तंवर, शिवरतन दीक्षित, राजेश, राकेश, वीरेंद्र, संदीप, सहित अनेक लोगों ने पंचायत समिति बनाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने निर्देश दिये: पाक नागरिकों के वीज़ा निरस्त करें

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से वार्ता में गृह मंत्रालय के निर्देशों की पूरी पालना पर जोर दिया

जयपुर, 25 अप्रेल। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वार्ता के पश्चात, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्र द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आश्चस्त किया कि पाकिस्तान नागरिकों के वीज़ा के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों का राज्य में कठोरता से पालना की जाएगी।

जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक वी.सी. के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सार्क वीज़ा, शनिवार 26 अप्रैल से, एवं दीर्घकालिक वीज़ा, राजनयिक और आधिकारिक वीज़ा को छोड़कर, सभी मौजूदा वैध वीज़ा रविवार 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से रह कर दिये है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

■ **मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।**

इस क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने शुक्रवार को सचिवालय में सम्बंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, सी.आई.डी. सुरक्षा पुलिस महानिदेशक संजय अग्रवाल, गृह विभाग की शासन उप सचिव सोविला माथुर, राजेश जैन, समस्त पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। सभी

मेडिकल वीज़ा 29 अप्रैल, 2025 तक ही वैध रहेंगे। पाकिस्तानी नागरिकों का निष्कासन अटारी बॉर्डर से किया जाना है।

एसीएस (होम) ने संबंधित पुलिस अधीक्षकों एवं एफ.आर.ओ को निर्देश दिए कि ऐसे पाक नागरिक, जो लॉग टर्म वीज़ा के अतिरिक्त अन्य वीज़ा पर राज्य में निवासरत हैं, उनके निष्कासन की कार्यवाही गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में वर्णित समय सीमा के अनुसार की

पहलगाम आतंकी हमले के संदिग्धों के घर विस्फोट से तोड़े

श्रीनगर, 25 अप्रैल। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग जिलों में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो आतंकवादियों के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिन पर पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल होने का संदेह है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि ये घर पुलवामा के त्राल के मोनाधामा इलाके के आसिफ शेख और अनंतनाग के आदिल हुसैन थोकर के थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोटक सामग्री को मौजूदगी के कारण घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात विस्फोट करके घरों को गिरा दिया गया। अधिकारी ने कहा, "दोनों स्थानों पर सुरक्षा बलों द्वारा की गई तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिलीं। संभावित खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बल तुरंत पीछे हट गए। कुछ ही देर बाद बड़े

■ **तलाशी में सुरक्षा बलों को इन घरों में संदिग्ध वस्तुएं मिली थीं।**

विस्फोट करके मकान को नष्ट कर दिया गया।"

त्राल के स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि शेख के घर पर विस्फोट तब किया गया, जब सुरक्षा बलों ने परिवार को वहां से निकाल लिया था।

माना जा रहा है कि जिन दो आतंकवादियों के मकान ध्वस्त किये गये, वे उस समूह का हिस्सा थे, जिसने पहलगाम के पास बैसरन मैदान में पर्यटकों पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।

पुलिस ने गुरुवार को प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर तीन हमलावरों के रस्के जारी किए।

भारत अब...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जिनमें इस निर्णय के क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाली कानूनी चुनौतियाँ भी शामिल हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने इन गतिविधियों पर बड़ी सख्त प्रतिक्रिया दी है। "पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी" ने कहा है कि "भारत द्वारा सिन्धु जल को रोकने या उसका रास्ता बदलने के किसी भी प्रयास को "युद्ध की कार्यवाही" माना जायेगा।" सन् 1960 में हुए समझौते को उसके 24 करोड़ नागरिकों की "लाइफलाइन" बताते हुये, इस्लामाबाद ने जोर देते हुये कहा कि इस समझौते को एकतरफा रूप से स्थगित नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद ने बदले की कार्यवाही की चेतावनी दी है।

सेना प्रमुख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
गोलीबारी हुई। सेना प्रमुख श्रीनगर में व्यापक सुरक्षा समीक्षा भी करेंगे। उनके पहलगाम के पास बैसरन क्षेत्र का दौरा करने की भी संभावना है, जहाँ पर्यटकों पर हमला हुआ था। वह हमलावरों का पता लगाने के लिए मंगलवार को शुरू किए गए अभियान की समीक्षा भी करेंगे।

केन्द्र ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया

केन्द्र सरकार ने कहा कि वक्फ संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का नियंत्रण है इसलिए इन पर अंतरिम रोक न लगाई जाए

नयी दिल्ली, 25 अप्रैल। केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना प्रारंभिक हलफनामा दाखिल कर इस विवादस्पद कानून की संवैधानिक वैधता का दृढ़ ता से बचाव किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से दाखिल किए गए इस हलफनामे में केंद्र ने उन दलीलों को खारिज कर दिया है कि संशोधन संविधान के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करना है। यह धार्मिक स्वतंत्रता या इस्लामी अनुष्ठानों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

■ **केन्द्र सरकार ने कहा कि इन संशोधनों के तहत इस्लामी मान्यताओं व मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।**

का उद्देश्य केवल वक्फ संपत्ति प्रबंधन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करना है। यह धार्मिक स्वतंत्रता या इस्लामी अनुष्ठानों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

केंद्र सरकार ने संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों के लिए संवैधानिकता की

कानूनी धारणा का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से अधिनियम के प्रावधानों पर अंतरिम रोक न लगाने का आग्रह किया। केंद्र के हलफनामे में स्पष्ट तौर पर कहा, यह अधिनियम केवल प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक आयामों जैसे रिकॉर्ड रखने और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन से संबंधित है। यह किसी भी आवश्यक धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों या दायित्वों में हस्तक्षेप से बचता है। केंद्र ने 'वक्फ-बाय-यूज' की बूट पर चिंताओं को भ्रामक और निराधार बताया। सरकार ने स्पष्ट किया कि आठ अप्रैल, 2025 तक पहले से पंजीकृत सभी मौजूदा वक्फ भूमि पूरी तरह से संरक्षित है।

1923 से लगातार वक्फ कानूनों के तहत अस्तित्व में है। सरकार ने जोर देकर कहा कि वक्फ पंजीकरण कोई नई आवश्यकता नहीं है, संशोधन केवल नियामक है। इससे धार्मिक अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने कहा, यह एक स्पष्ट और अनिवार्य विधायी व्यवस्था है, जो सभी वक्फों का पंजीकरण सुनिश्चित करती है।

केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने पर आपत्तियों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि ये निकाय प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष हैं और धार्मिक प्रथाओं का प्रशासन नहीं करते हैं। सरकार ने जोर देकर कहा कि उनकी भूमिका नियामक और सलाहकार की है।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
गांधी भी "आपका वफादार सेवक" जैसे शब्दों का प्रयोग किया करते थे? क्या उन्हें (राहुल) मालूम है कि उनकी दादी ने इस स्वतंत्रता सेनानी को पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की थी? उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदार बयान मत देने दीजिये। अगर स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास-भूतल ज्ञान बिना इस प्रकार के बयान नहीं दे सकते।"

अदालत उस याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की थी। याचिका को चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायायक दामोदर सायकर के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिये एक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी किये गये सम्मनों को रह करने से इनकार कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुभाष विद्याशी ने गांधी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था तथा कहा था कि गांधी के पास उच्च न्यायालय में आने के बजाय, जो ऑफ क्रिमिनल प्रॉसिजर की धारा 397 (रिख्यू ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ लोअर कोर्ट) के तहत, सत्र न्यायालय जाने का विकल्प है। सत्र न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली थी, तथा उसे अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस भेज दिया था, जिसने गांधी को सम्मन जारी किये थे।

अपने आदेश में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि गांधी ने कहा है कि सावरकर एक "ब्रिटिश सर्वेंट" थे, जिन्हें पेशना मिलती थी।

नाबालिग छात्रा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
पड़ोसी के फोन से अभियुक्त को फोन किया था और उसके बाद से उसकी बेटी का कोई पता नहीं है। इसके अलावा, अभियुक्त को नंबर भी बंद आ रहा है। अभियुक्त उसकी बेटी को बहलाकर ले गया है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जांच में पता चला कि आरोपी, पीड़िता को गाजियाबाद, दिल्ली और गोवा सहित अन्य जगहों पर ले गया था और वहां पर उसके साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया।

ईरान और सऊदी अरब ने भारत -पाक के बीच मध्यस्थता की पेशकश की

■ **सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भारत व पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से बात की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसकी पुष्टि की।**

ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ईरान के पड़ोसी हैं। दोनों ही देशों के साथ ईरान के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। ईरान पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों को अपनी प्राथमिकता मानता है। भारत और पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल वक्त में हैं। ईरान इस मुश्किल समय में दोनों देशों के बीच समझ बढ़ाने के लिए तैयार है।

सैयद अब्बास अराघची ने फारसी

कवि सादी की कविता अपने ट्वीट के साथ शेयर की है। इस कविता का भाव कुछ इस तरह से है कि दुनिया के सभी ईंसान एक ही तरह के हैं। अगर कहीं एक ईंसान को दर्द होता है, तो बाकी ईंसान भी बेचैन रहेंगे। इस कविता का मतलब यही है कि दुनिया में हर जगह शांति रहे और सभी ईंसान एक दूसरे से प्यार करते हुए अमन से रहें।

पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी के विदेश मंत्री से बातचीत होने की जानकारी दी है। इशाक डार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सऊदी के विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई है। पाक विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के एकतरफा फैसलों के बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में लिए गए निर्णयों के बारे में प्रिंस फैसल को जानकारी दी।

इसरो के पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कस्तूरीरंगन के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया है। उन्होंने महान वैज्ञानिक के परिवार, उनके विद्यार्थियों, वैज्ञानिक साथियों तथा अनगिनत प्रसंसकों के प्रति दुःख की इस घड़ी में संवेदना व्यक्त की है।

मोदी ने कहा, नयी शिक्षा नीति (एनईपी) का मसौदा तैयार करने में डॉ. कस्तूरीरंगन की भूमिका के लिए देश सदैव ऋणी रहेगा। डॉ. कस्तूरीरंगन ने इस नीति में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि देश में पढ़ाई-लिखाई अधिक समग्र तथा भविष्योन्मुखी हो। उन्होंने अनेक वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं का विलक्षण रूप से पथ-प्रदर्शन किया। डॉ. कस्तूरीरंगन 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।वह 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत की अंतरिक्ष उल्लब्धियों के निर्माता थे।